



**INTELLECTUAL
PROPERTY INDIA**

PATENTS | DESIGNS | TRADE MARKS
GEOGRAPHICAL INDICATIONS



सत्यमेव जयते

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

पेटेंट कार्यालय
THE PATENT OFFICE

पेटेंट प्रमाणपत्र
PATENT CERTIFICATE
(Rule 74 Of The Patents Rules)

क्रमांक : 044119438
SL No :



पेटेंट सं. / Patent No. : 337402
आवेदन सं. / Application No. : 201641006148
फाइल करने की तारीख / Date of Filing : 23/02/2016
पेटेंटी / Patentee : INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY MADRAS

प्रमाणित किया जाता है कि पेटेंटी को उपरोक्त आवेदन में यथाप्रकटित FABRICATION OF ECO-FRIENDLY ORGANIC FERROELECTRIC DIISOPROPYLAMMONIUM BROMIDE FILMS नामक आविष्कार के लिए, पेटेंट अधिनियम, १९७० के उपबंधों के अनुसार आज तारीख 23rd day of February 2016 से बीस वर्ष की अवधि के लिए पेटेंट अनुदत्त किया गया है।

It is hereby certified that a patent has been granted to the patentee for an invention entitled FABRICATION OF ECO-FRIENDLY ORGANIC FERROELECTRIC DIISOPROPYLAMMONIUM BROMIDE FILMS as disclosed in the above mentioned application for the term of 20 years from the 23rd day of February 2016 in accordance with the provisions of the Patents Act, 1970.



अनुदान की तारीख : 27/05/2020
Date of Grant :

पेटेंट नियंत्रक
Controller of Patent

OkSupta

टिप्पणी - इस पेटेंट के नवीकरण के लिए फीस, यदि इसे बनाए रखा जाना है, 23rd day of February 2018 को और उसके पश्चात प्रत्येक वर्ष में उसी दिन देय होगी।

Note. - The fees for renewal of this patent, if it is to be maintained will fall / has fallen due on 23rd day of February 2018 and on the same day in every year thereafter.



Office of the Controller General of Patents, Designs & Trade Marks
 Department of Industrial Policy & Promotion,
 Ministry of Commerce & Industry,
 Government of India

(<http://ipindia.nic.in/index.htm>)



(<http://ipindia.nic.in/index.htm>)

| Application Details | |
|----------------------------------|---|
| APPLICATION NUMBER | 201641006148 |
| APPLICATION TYPE | ORDINARY APPLICATION |
| DATE OF FILING | 23/02/2016 |
| APPLICANT NAME | INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY MADRAS |
| TITLE OF INVENTION | FABRICATION OF ECO-FRIENDLY ORGANIC FERROELECTRIC DIISOPROPYLAMMONIUM BROMIDE FILMS |
| FIELD OF INVENTION | CHEMICAL |
| E-MAIL (As Per Record) | info@rsaip.com |
| ADDITIONAL-EMAIL (As Per Record) | info@rsaip.com |
| E-MAIL (UPDATED Online) | info@rsaip.com |
| PRIORITY DATE | |
| REQUEST FOR EXAMINATION DATE | 22/02/2017 |
| PUBLICATION DATE (U/S 11A) | 08/09/2017 |
| FIRST EXAMINATION REPORT DATE | 26/02/2019 |
| Date Of Certificate Issue | 27/05/2020 |
| POST GRANT JOURNAL DATE | 05/06/2020 |
| REPLY TO FER DATE | 23/08/2019 |

| Application Status | |
|--------------------|---|
| APPLICATION STATUS | Granted Application, Patent Number :337402 |

| | | | |
|----------------------------|--|--|--------------------------------|
| E-Register | | | View Documents |
|----------------------------|--|--|--------------------------------|



In case of any discrepancy in status, kindly contact ipo-helpdesk@nic.in

(12) PATENT APPLICATION PUBLICATION

(21) Application No.201641006148 A

(19) INDIA

(22) Date of filing of Application :23/02/2016

(43) Publication Date : 08/09/2017

(54) Title of the invention : FABRICATION OF ECO-FRIENDLY ORGANIC FERROELECTRIC DIISOPROPYLAMMONIUM BROMIDE FILMS

(51) International classification

:C01B
9/04

(31) Priority Document No

:NA

(32) Priority Date

:NA

(33) Name of priority country

:NA

(86) International Application No

:NA

Filing Date

:NA

(87) International Publication No

: NA

(61) Patent of Addition to Application Number

:NA

Filing Date

:NA

(62) Divisional to Application Number

:NA

Filing Date

:NA

(71)Name of Applicant :

1)INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY MADRAS

Address of Applicant :The Dean, Industrial Consultancy &

Sponsored Research [ICSR] Indian Institute of Technology

Madras IIT P.O, Chennai - 600 036, India Tamil Nadu India

(72)Name of Inventor :

1)Dr. P. Murugavel,

2)Thirmal Chinthakuntla,

(57) Abstract :

Organic ferroelectric diisopropylammonium Bromide precursor composition and method of fabricating organic ferroelectric Diisopropylammonium Bromide film from the precursor composition is disclosed.

No. of Pages : 11 No. of Claims : 3